

(Govt. Recognised Three Star Export House)

Regd. & Corporate Office: Vill. Kanech, Near Sahnewal, G.T. Road, Ludhiana-141120 Ph.: (0161) 2845456 to 60 Fax: 2845458 Admn. Office: 178, Col. Gurdial Singh Road, Civil Lines, Ludhiana-141001 Ph.: (0161) 2770954 to 55 Fax: 2770953 Website: www.sportking.co.in

GST No.: 03AAACS3037Q1ZA

SIL /2022-23/SE March 14, 2023

Dalal Street, Mumbai-400001 Script Code: 539221	(East), Mumbai – 400051 Symbol: SPORTKING
Phiroze Jeeheebhoy Towers,	Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, Bandra
BSE Limited	National Stock Exchange of India Ltd,
То	To

Sub: Submission of Corrigendum to the Letter of Offer pertaining to the Buyback offer upto 5,80,000 fully paid up equity shares of Sportking India Limited ("Company") of face value of Rs. 10/- (Rupees Ten only) each at a price of Rs. 950/- (Rupees Nine Hundred Fifty Only) per Equity Share on a proportionate basis through Tender Offer ("Buyback")

Dear Sir/ Madam,

This is in regard to the captioned Buyback offer and in furtherance of our letters dated January 31, 2023, February 7, 2023 and March 9, 2023 whereby the Company had submitted Public Announcement, Draft Letter of Offer and Letter of Offer alongwith Tender Forms (both physical and demat) and Share Transfer Form (form SH-4).

As disclosed in the LOF, the Offer/Tendering Period has been mentioned as a period starting from Wednesday, March 15, 2023 and ending on Tuesday, March 28, 2023 (both days inclusive). In this connection, the Shareholders of the Company are hereby informed that as Wednesday, March 22, 2023, being a SEBI non-working day, the Acquisition Window provided by the BSE will not be functional on that day. Since the Shareholders will not be able to place their bids on Wednesday, March 22, 2023, accordingly, the closing date of the Offer/Tendering Period has been extended by 1 (one) day, whereby the Offer shall now close for bidding on Wednesday March 29, 2023.

Accordingly, please find below the revised schedule of activities for the Buyback Offer and the Shareholders of the Company are requested to note the revision to the Schedule of Activities and all the references in the LOF with respect to the activities / day and dates must be read accordingly:

Activity	Original schedule of activities Day and Date	Revised schedule of activities Day and Date
Date of the board meeting approving the proposal for Buyback of Equity Shares	Saturday, January 28, 2023	Saturday, January 28, 2023
Date of declaration of the results of the postal ballot for passing resolution by the Equity Shareholders of the Company, approving the Buyback	NA	NA
Date of Public Announcement for the Buyback	Monday, January 30, 2023	Monday, January 30, 2023
Date of publication of Public Announcement for the Buyback in newspapers	Tuesday, January 31, 2023	Tuesday, January 31, 2023
Record Date for determining the Buyback Entitlement and the names of Eligible Shareholders	Friday, February 10, 2023	Friday, February 10, 2023
Buyback opens on/ Buyback Opening Date	Wednesday, March 15, 2023	Wednesday, March 15, 2023
Buyback closes on/ Buyback Closing Date	Tuesday, March 28, 2023	Wednesday, March 29, 2023



(Govt. Recognised Three Star Export House)

Regd. & Corporate Office: Vill. Kanech, Near Sahnewal, G.T. Road, Ludhiana-141120 Ph.: (0161) 2845456 to 60 Fax: 2845458 Admn. Office: 178, Col. Gurdial Singh Road, Civil Lines, Ludhiana-141001 Ph.: (0161) 2770954 to 55 Fax: 2770953 Website: www.sportking.co.in CIN No. L17122PB1989PLC053162

GST No. : 03AAACS3037Q1ZA

Last date of receipt of completed Tender Forms and other specified documents including physical share	Thursday, March 30, 2023	Friday, March 31, 2023
certificates (if and as applicable) by the Registrar to		
the Buyback	1 110 0000	m 1 A
Last date of verification of Tender Forms by	Monday, April 10, 2023	Tuesday, April 11, 2023
Registrar to the Buyback	V	
Last date of intimation to the Stock Exchanges	Monday, April 10, 2023	Tuesday, April 11, 2023
regarding acceptance or non-acceptance of		
tendered Equity Shares by the Registrar to the		
Buyback		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Last date of completion of settlement of bids on the	Tuesday, April 11, 2023	
Stock Exchanges		2023
Last date of dispatch of share certificate(s) by	Tuesday, April 11, 2023	
Registrar to the Buyback/ payment to the Eligible		2023
Shareholders / return of unaccepted Demat shares		-
by Stock Exchanges to Seller Member/ Eligible		
Shareholders		1 1 10
Last date of extinguishment of Equity Shares	Tuesday, April 18, 2023	Wednesday, April 19,

bought back

Note: Where last dates are mentioned for certain activities, such activities may happen on or before the respective last dates.

In this regard, the Corrigendum to the Letter of Offer has been published in following newspapers on March 14, 2023:

- > Business Standard (English All Edition)
- > Business Standard (Hindi All Edition)
- Daily Suraj (Punjabi Regional Edition)

We hereby further submit the soft copy of Corrigendum to the Letter of Offer (pdf version) dated March 13, 2023 for your reference and dissemination of the same.

The copy of Corrigendum to the Letter of Offer is expected to be available on the website of the Company (www.sportking.co.in); Securities and Exchange Board of India (www.sebi.gov.in); BSE (www.sebi.gov.in); BSE (www.nseindia.com).

You are requested to please take the above information on record.

Yours truly,

For SPORTKING INDIA LIMITED

LOVLESH VERMA COMPANY SECRETARY (ACS: 34171)

Encl. As above

Realty market's hall of mirrors Meet advance tax deadline no fun house, but mood upbeat

Despite multi-year low valuations, brokerages see rise in demand and fall in inventory

▼ hough the 2022-23 financial year (FY23) is expected to end with record sales for the Indian real estate sector, valuations are at multi-year lows on worries of rising interest rates hurting volumes. Most brokerages, however, expect listed realty majors to get support, given their comfortable leverage, steady rise in locationagnostic demand, and falling inventory levels.

According to real estate data and analytics platform PropEquity, the sector grossed sales of 149 million square feet (msf) in the top seven cities in the October-December quarter (third quarter, or Q3) of FY23 - the highest quarterly sales in the past decade.

In the nine months that ended December, sales increased 34 per cent year-on-year (YoY) to 412 msf. Strong sales, on the back of high demand and increased affordability, helped bring down the levels of inventory.

The unsold inventory levels dropped to 839 msf as of December 2022, from 923 msf in December 2021. Consequently, the years-tosell for unsold inventory declined to a decade-low of 1.5 years, says rating agency ICRA.

Further, the average sale price strength of consumer sentiment. rose 10 per cent in Q3FY23 on a YoY basis, driven by a partial pass-on of an increase in input costs, as well as a change in the product mix, with a higher share of luxury units. The trend of strong sales continued into the current calendar year.

In the Mumbai market, for instance, property registrations in remained constant, they observe. February were up 8 per cent over January, albeit down 7 per cent on

Real estate research analysts Rupesh Sankhe and Tanvi Tambat Realty, and Godrej Properties, of Elara Securities say Mumbai's which get a substantial portion of residential market is stable, undetheir sales from the residential propterred by strong headwinds, on the erty market.



LKE220KE	Price-to	-earnings	ratio (x)	
	6-month returns (%)	1-year forward	5-year average	Discount (%)
NSE Nifty50	-2.4	19.4	18.9	3.0
BSE Sensex	-1.1	20.8	19.7	5.1
BSE Realty	-14.9	27.3	29.0	-5.6
NSE Nifty Realty	-15.3	26.9	28.5	-5.5
DLF	-11.8	30.9	32.5	-5.0
Macrotech Developers	-18.2	23.9	32.2	-25.9
Godrej Properties	-17.5	36.9	62.3	-40.7
Oberoi Realty	-13.8	18.1	18.8	-3.8
The Phoenix Mills	-5.6	26.5	34.9	-23.9
Prestige Estates Projects	-15.7	23.2	24.1	-3.5
Brigade Enterprises	-17.3	28.5	28.1	1.5
Mahindra Lifespace Developers	-33.5	35.1	88.1	-60.1
Sobha	-23.2	14.3	15.2	-5.6

supported by a rise in income levels and sustained inclination towards house ownership after the pan-

In the face of higher home loan rates, zero sops from the state government, and a rise in capital values versus last year, demand has This should benefit organised listed realty players, such as Macrotech Developers (formerly Lodha Developers), Oberoi Realty, Sunteck

While sales have remained upbeat, stocks of real estate majors are facing the heat, given worries about the rising cost of loans and the impact on equated monthly instalments, higher interest rates, leverage for developers,

Compiled by BS Research Bureau

price increases by developers. Compared to a flat performance of the benchmark indices over the past six months, the realty indices the S&P BSE Realty and the National Stock Exchange Nifty Realty - are down 14 per cent apiece.

and homebuyers' ability to absorb

Given the lower stock prices, valuations have hit five-year lows. The Nifty Realty and the BSE Realty are

earnings estimates, weighed up against their five-year averages.

Analysts Murtuza Arsiwalla and Abhishek Khanna of Kotak Securities say that valuations for residential real estate companies are hitting a new low as regards implied enterprise value to operating profit, while the premium to net asset value has nearly disappeared.

Even as investors are worried about rising interest costs, the brokerage highlights that empirical data on residential sales points to little correlation of demand with interest rates.

Macrotech Developers, Sobha, and Prestige Estates Projects offer maximum upside on account of derating of multiples, says Kotak Securities. The other worry for the Street is the increase in leverage and pressure on cash flows attributable to the rising cost of operations and interest rates.

Experts are, however, of the view that operational metrics will continue to remain buoyant.

Savs Anupama Reddy, vice-president and co-group head, corporate ratings, ICRA, "While the outflows towards new launches and land investments are likely to increase, we expect net debt/cash flow from operations to remain healthy at less than 2x in the next two years, supported by stable inflows and consequent deleveraging of the balance sheet.'

JM Financial, too, is bullish about the prospects of the sector and feels the real estate cycle is here to stay. While there could be minor moderation in demand, given the strong balance sheet strength and a long runway for growth, developers offer a healthy risk/reward ratio, says Manish Agrawal, senior real estate analyst, JM Financial.

At current levels, DLF, Macrotech Developers, Phoenix Mills, and Prestige Estates are his preferred picks.

Edelweiss protect

to steer clear of penalties

A fine is levied at the rate of 1% simple interest per month

BINDISHA SARANG

The income-tax (I-T) department has appealed to taxpayers to pay their fourth and final instalment of advance tax for the 2022-23 financial year (FY23) before the March 15 deadline. Failure to do so will lead to a penalty. Advance tax is payable on estimated income. It needs to be paid in the year in which the income is earned, instead of as a lump sum at the time of filing the tax return. Think of it as a pay-as-you-earn tax. Paying a huge amount of tax at one time can be burdensome. Pallav Pradyumn Narang, partner, CNK, says, "Advance tax serves the purpose of ensuring the timely and regular payment of tax throughout the year."

Who pays and who doesn't

Every person whose estimated tax liability is₹10,000 or more in a financial year is required to pay advance tax. Pradeep Kumar Jain, managing partner, Singhania & Company, says, "Person here includes individuals, companies, trusts, the Hindu Undivided Family (HUF), firms,

societies, the Association of

Persons (AOPs), etc." Salaried taxpayers whose tax is fully deducted as tax deducted at source (TDS) by their employer need not worry about advance tax payments. Ankit Jain, partner, Ved Jain & Associates, says, "However, salaried taxpavers who have income from sources such as interest, rental income, capital gains, and other sources are required to pay advance tax.'

Advance tax payment is more relevant to the non-salaried. "Taxpayers who have opted for the presumptive taxation

SCHEDULE FOR PAYMENT OF ADVANCE TAX INSTALMENT **DUE DATE** TAX PAYABLE On or before June 15 At least 15% of total advance tax At least 45% of total advance Second On or before September 15 tax less earlier instalment On or before December 15 At least 75% of total advance tax less earlier instalment Fourth On or before March 15 100% of the total advance tax less earlier instalment Source: Singhania & Co

scheme for business or profession under Section 44AD or 44ADA also have to pay advancetax," says Nikhil Varma, managing partner, MVAC.

Non-Resident Indians are only liable to pay tax in India on income generated in India.

Narangsays, "If their income is subject to TDS, they may not be required to pay advance tax." Jain from Ved Jain &

Associates, says, "Interest earned from the Non-Resident **External account is** exempt and no tax is needed to be paid on it.' Varma explains that resident

senior citizens who do not have income from business or profession are not liable to pay advancetax. They can deposit the entire tax amount at the time of filing their return.

Beware of penalties

YOUR

MONEY

Penalties are levied under Sections 234B and 243Cif taxpayers miss the payment of advancetax. Jain from Singhania & Co., says, "The penalty is in the form of interest for default in payment and is levied at 1 per cent simple interest per month or part of a month.'

Varma adds, "If you miss the prescribed deadline for payment, you may still pay advance tax before March 31 of the year, and such payment will be considered as advance tax."

But what happens if you miss both the March 15 and the March 31 deadline? Jain from Ved Jain & Associates, says, "If you miss the March 31 deadline, you can still pay the outstanding tax along with interest under Section 234B and 234C. Such interest is levied at1percent per month." In such a case, the entire amount of tax. along with the interest and penalties, will have to be paid while filing the tax return.

Points to keep in mind

To calculate advance tax, taxpayers can estimate their income for the financial year after factoring in deductions under Section 80C, 80D, and home loan interest. Jain from Ved Jain & Associates, says, "The tax liability on income has to be paid according to the applicable slab and the tax regime chosen by the taxpayer and can be deposited to the government in instalments." Adjustments for any TDS deducted can be made while calculating advance tax.

Advance tax payments can be made using Challan 280.

HeidelbergCement India Limited CIN: L26942HR1958FLC042301

Regd. Office: 2rd Floor, Plot No. 68, Sector 44, Gurugram, Haryana -122002 Phone: +91 0124-4503700, Fax +91 0124-4147698, Email-id: investors.mcl@mycem.in; Website: www.mycemco.com

NOTICE Notice is hereby given that pursuant to various General Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs, the Company will be providing remote e-voting facility to its Members to enable them to cast their votes on the resolutions set out in the Postal Ballot Notice to be

The Postal Ballot Notice will be sent through e-mail only to the eligible Members who have already registered their e-mail address with their depository participant / the Company's Registrar and Share Transfer Agent.

In case you have not yet registered your email-id with the Company/Depository Participants, please follow the below mentioned instructions to register your email-id for obtaining soft copy of Postal Ballot Notice:

Send a request to the RTA at irg@integratedindia.in providing Folio No. Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (selfattested scanned copy of Aadhar Card) for registering email address along with duly filled Form ISR-1 prescribed by SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/CIR/2021/655 dated 03 November 2021

Please contact your Depository Participant (DP) for registering you Demat holding

Public Notice in Form XIII of MOFA (Rule 11(9) (e))

District Deputy Registrar, Co-operative Societies, Mumbai City (3) **Competent Authority**

U/s 5A of the Maharashtra Ownership Flats Act, 1963. Mhada Building, Ground Floor, Room No. 69, Bandra (E), Mumbai - 400051

(Regulation of the Promotion of construction, Sale, Management and Transfer) Act, 1963 **Public Notice**

Application No. 20 of 2023

Residencey CHSL., Four Bunglows Versova. Andheri (West), Mumhai- 400 053 ...Applicant. Versus 1.0shiwara Land Development (Company) Corporation Private Limited, Four Bunglows Versova, Andheri (West). Mumbai- 400 053 on land bearing

C.T.S. No.1/123, Sirvey No.41 (Pan). Plot No.38 at Village: Oshiwara, Taluka Andhei 2. Shri.Swami Samartha Prasanna Co-op. Housing Society Last Known Address at

Four Bunglows Versova. Andheri (West), Mumbai- 400 053. on land bearing C.T.S. No.1 /123, Sirvey No.41 (Part). Plot No.38 at Village: Oshiwara. Taluka Andheri **3. Yasmin**

Enterprsics (A Private trust) Last Known Address at : Four Bunglows Versova. Andheri (West). Mumbai- 400 053 on land bearing C.T.S. No.1/123, Sirvey No.41 (Part). Plot No.38 at Village : Oshiwara, Taluka Andheri 4. M/s. Lokhandwala Premises Private

Limited 48. Indranarayan Road, Santacruz West, Mumbai- 400 054 5. Bunglow No. c/o Shri Amar Sheth Sheth House 6. Bunglow No.2 c/o Sanjay Shukla 7. Bunglow No.3 c/o Mr. Mukesh Gaglani and Mrs. Sonal Gaglani 8.Bunglow No.4 do M/s P.S.E.L. Limited 9. Bunglow No.5 c/o Mr. Mahendra Padhir All having address

at: Plot no.38, Shri Aurobindo lanc.Lokhandwala complex. Andheri West. Mumbai - 400 053. ...Opponents, and those, whose interests have been vested in the said property may submit their say at the time of hearing at the venue mentioned above

Failure to submit any say shall be presumed that nobody has any objection in this regard

Claimed Area

Unilateral deemed Conveyance of land bearing C.T.S. No.1/123, Survey No.41 (part). Plot No. 38 at Village: Oshiwara, Taluka: Andheri, admeasuring 2900.62

sq.mts out of 3929.70 sq.mts.,(i.e proportionate rights in plot Area as per P.R.C.) as per Architect Certificate along with conveyance of the building namely Residency Co-operative Housing Socities Ltd.. situated at Four Bunglows, Versova, Andheri (West), Mumbai- 400 053 together known as Suit Permises in

and further action will be taken accordingly.

The hearing is fixed on 03/04/2023 at 3.00 p.m.

(Seal

Description of the Property, :-

favour of the Applicant.

For HeidelbergCement India Limited Rajesh Rela

Date: - 09/03/2023

Place : Gurugram Date : 13 March 2023 Sr. Vice President- Corporate Affairs 8 Company Secretary

No.DDR-3/Mum./ Deemed Conveyance/Notice/685/2023 Dat Application u/s 11 of Maharashtra Ownership Flats

EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED

Registered Office Situated At Tower 3, 5th Floor, Wing 'B', Kohino Mall , Kohinoor City, Kirol Road, Kurla (West), Mumbai – 400 070 POSSESION NOTICE UNDER RULE 8(1) OF THE SARFAESI ACT, 2002
Whereas the Undersigned being the Authorized Officer of EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (Second) Ordinance, 2003 (order 3 of 2002) and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with Rule 3 of the Security interes (Enforcement) Rules 2002 issued Demand Notices to the Borrower/s as detailed hereunder, calling upon the respectiv Borrowers to repay the amount mentioned in the said notices with all costs, charges and expenses till actual date of pay

ment within 60 days from the receipt of the same. The said Borrowers/Co borrowers having failed to repay the amoun notice is hereby given to the Borrowers/Co borrowers and the public in general that the undersigned has taken symboli possession of the property described hereunder in exercise of powers conferred on him under Section 13(4) of the sai Act r/w Rule 8 of the said Rules in the dates mentioned along-with the Borrowers in particular and public in general ar hereby cautioned not to deal with the properties and any dealings with the properties will be subject to the charge of EDEL WEISS HOUSING FINANCE LIMITED. For the amount specified therein with future interest, costs and charges from the respective dates. Details of the Borrowers, Co-borrowers and Guarantors, Securities, Outstanding Dues, Demand Notic sent under Section 13(2) and Amount claimed thereunder and Date of Possession is given as under: Name and Address of the Borrower, Co Borrower Guarantor Loan Account No. And Loan Amount

Sunil J Gawade (Borrower) & Samidha Sunil Gawade (Co-borrower) B-105, Ganesh Complex, Manjarli, Near Deepa Park, Badlapur west – 421503 Also At: Room No. A1, Ground Floor, A.Arunoday, Anandroa N Surve Marg, Umerkhad Chinch Bunder, Masjid-40009. LAN No. LKYNSTH0000071503 Loan agreement Date: 25th March 2019

Demand Notice Date: 13.12.2022 NPA Date: 05.12.2022

Loan Amount: Rs. 20,49,531/- (Rupees Twenty Lakhs Forty Nine Thousand Five Hundred Thirty One Only)

Amount Due in: Rs.20,75,833.62/- (Rupees Twenty Lakhs Seventy Five Thousand Eight Hundred Thirty Three and Sixty T paisa Only) due and payable as on 10-Dec-22 together with further interest from 11-Dec-22 Symbolic Possession date: 10.03.2023

Details of the Secured Asset: SCHEDULE OF THE PROPERTY: All that piece and parcel of Flat No.103, on 1st Floor "B" Wing, having carpet area admeasuring 41.48 Sq.Mtrs (Which is inclusive of balconies) in the building known as "Ganesh Complex" to be constructed on N.A land bearing S.No. 62 (p), admeasuring 1380 Sq.Mtrs., S.No.62 (p), admea suring 1380 Sq.Mtrs, S.No.76, H.No.6/2/1, admeasuring 320 Sq.Mtrs, and S.No.76, H.No.6/1/2, admeasuring 290 Sq. mtrs otally admeasuring 3370 Sq.Mtrs., lying, being and situated at Village Valivali, Tal. Ambernath, Dist. Thane, within the lin ts of kulgaon Badlapur Municipal Council and within registration District Thane and Sub –District Ulhasnagar.

Sd/- Authorized Office For EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED Date: 14.03.2023

EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED Registered Office Situated At 5th Floor, Tower 3, Wing 'B', Kohin Mall , Kohinoor City, Kirol Road, Kurla (West), Mumbai – 400 070

Edelweiss

DEMAND NOTICE UNDER SECTION 13(2) OF THE SARFAESI ACT, 2002 Notice is hereby given that the following borrower/s have defaulted in the repayment of principal & interest of the loan faci titles obtained by them from the EHFL and the said loan accounts have been classified as Non-Performing Assets (NPA).

The Demand notice was issued to them under Section 13(2) of The Securitisation and Reconstruction of Financial Asset

and Enforcement of Security Interest Act 2002(SARFAESI Act) on their last known address. In addition to said deman anotice, they have been informed by way of this public notice.

Details of the Borrowers, Securities, Outstanding Dues, Demand Notice sent under Section 13(2) and A claimed there under are given as under:

1. Name and Address of the Borrower. Co Borrower. Guarantor And Loan Amount:
PRATAP LAXMAN KATE (BORROWER) & UJWALA PRATAP KATE (CO-BORROWER) Flat No 304, Darshana Apartment, 'A Wing', Piswalli, Kallyan (East) - 421306.
LAN.NO: LMUMSTH0000047055 LOAN AGREEMENT DATE: 15-MAY-18

DEMAND NOTICE DATE:- 08.02.2023 NPA DATE:- 04.02.2023 LOAN AMOUNT: Rs. 14,32,115/- (Rupees Fourteen Lacs Thirty Two Thousand One Hundred And Fifteen Only)

Amount Due in Rs.13,60,580.94/- (Rupees Thirteen Lacs Sixty Thousand Five Hundred Eighty and Ninety Fou

Paisa Only) With further interest, penal interest from the date of demand notice 08.02.2023 Details of the Secured Asset: SCHEDULE OF THE PROPERTY All that premises, being Flat No.204, on 2nd Floor, B-Wing, area admeasuring 33.04 Sq.Mtrs & additional Balcony area 5.12 Sq.Mtrs of Carpet Area., in the Building Known as "Whistling Woods Park Complex", constructed on piece and parcel of N.A. land bearing Survey No.15, Hissa No.2, admeasuring 0 H-48 R-0P, situated at Village Bandhivali, Talathi Saja Karjat, Taluka Karjat, District Raigad, within limits of Group Grampanchayat, Shelu, Taluka and Registration Sub-District Karjat, District and Registration District Raigad.

2. Name and Address of the Borrower. Co Borrower. Guarantor And Loan Amount; SHEETAL PRASAD ASHARFILAL GUPTA (BORROWER), ASARFILAL GAURISHANKAR GUPTA (CO-BORROWER) RAMILA SHEETALA PRASAD GUPTA (CO-BORROWER) 2/103, Sai Saraswati Dham, Shantivan, Mira Bhayang

Road, Mira Road East Thane 401107. **LAN.NO:** LKOH0HL0000089597& LKOH0TU0000089765

LOAN AGREEMENT DATE: 25TH SEPTEMBER 2021 & 27TH SEPTEMBER 2021

DEMAND NOTICE DATE: 08.02.2023 NPA DATE: - 04.02.2023

LOAN AMOUNT: RS. 80,30,000/- (Rupees Eighty Lakhs Thirty Thousand Only) & Rs. 4,00,000/- (Rupees Four Lakhs Only)

Amount Due Rs.81,82,244.83/- (Rupees Eighty One Lakhs Eighty Two Thousand Two Hundred Forty Four and Eighty Three Paisa Only) & Rs. 4,07,854.77/- (Rupees Four Lakhs Seven Thousand Eight hundred Fifty Four and eventy Seven Paisa Only) With further interest, penal interest from the date of demand notice 08.02.2023

Details of the Secured Asset; SCHEDULE OF THE PROPERTY All that piece and parcel of Flat No. 303, on 3rd Floor in 'B' Wing admeasuring 394 sq.ft. Carpet Area as per RERA i.e 473 sq.ft. Built-Up Area in the building known as "TANDICE" (Previously known as "MAHESH RESIDENCY") along with one open car parking space bearing no.18 Situated at M.G. Road, Dahanukanwadi, Kandivali (West), Mumbai-400 067, and constructed on all that piece or parcel of land situated, lying and being at Village, Kandivali, Taluka, Borivali bearing C.T.S. No. 960, 961/1 to 18 in the District and Registration Sub-District of Mumbai City, Mumbai Suburban District.

3.Name and Address of the Borrower. Co Borrower, Guarantor And Loan Amount:
NILIMA RAJENDRA DESHMUKH (BORROWER) & RAJENDRA VASANT DESHMUKH (CO-BORROWER) Hous
No.1377, Near Murbad Bus Stop, Shelke Pada, Murbad, Murbad 421401
LAN.NO: LKYNSTH0000085628 LOAN AGREEMENT DATE: 31ST DECEMBER 2020

DEMAND NOTICE DATE:- 09.02.2023 NPA DATE:- 04.02.202 LOAN AMOUNT: RS. 21,52,500/- (Rupees Twenty One Lakhs Fifty Two Thousand Five Hundred Only)

Amount Due Rs.22,28,705.91/- (Rupees Twenty Two Lakhs Fifty Two Thousand Five Hundred Only)

Amount Due Rs.22,28,705.91/- (Rupees Twenty Two Lakhs Twenty Eight Thousand Seven Hundred Five an Ninety One Paisa Only) With further interest, penal interest from the date of demand notice 09.02.2023

Details of the Secured Asset: SCHEDULE OF THE PROPERTY All that piece and parcel of Flat bearing No.302. 3rd Floor, in the project known as "Sai Sansar Shelter" in the building known as Varadvinayak, building no.7 admeasuring about 603 Sq. feet carpet (which is inclusive, constructed on the N.A. land bearing Survey No.65, Hissa No.4A/ Par Survey No.66, Hissa No.3 (Part)A, and Survey No.75 Hissa No.1, lying and situate at Village Murbad, Mouje Murba Taluka Murbad, District Thane.

You the above Borrower/S are therefore called upon to make payment of the outstanding dues as mentioned hereinab in full Within 60 Days of this Notice failing which the undersigned shall be constrained to take action under the SARFAE SI act to enforce the above mentioned securities. Please note that as per Section 13(13) of The Said Act. You as restrained from transferring the above-referred securities by way of sale, lease or otherwise without our consent

Sd/- Authorized Office For EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED Date: 14.03.2023

Sportking

SPORTKING INDIA LIMITED

Corporate Identity Number (CIN): L17122PB1989PLC053162
Registered Office: Village Kanech, Near Sahnewal, G. T. Road, Ludhiana -141 120; Tel. No.: +91 161 2845456 to 60
Fax No.: +91 161 2845458; Email: cs@sportking.co.in; Website: www.sportking.co.in;
Contact Person: Mr. Lovlesh Verma, Company Secretary and Compliance Officer CORRIGENDUM TO LETTER OF OFFER DATED MARCH 1, 2023 FOR THE ATTENTION OF THE

CORRIGENDUM TO LETTER OF OFFER DATED MARCH 1, 2023 FOR THE ATTENTION OF THE EQUITY SHAREHOLDERS/BENEFICIAL OWNERS OF EQUITY SHARES OF SPORTKING INDIA LIMITED ("COMPANY") FOR THE BUYBACK OF EQUITY SHARES THROUGH TENDER OFFER PROCESS UNDER THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (BUY-BACK OF SECURITIES) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED ("SEBI BUYBACK REGULATIONS") This corrigendum to letter of offer dated March 1, 2023 ("Corrigendum") should be read in continuation

Inis corrigendum to letter of offer dated March 1, 2023 ("Corrigendum") should be read in continuation of and in conjunction with the public announcement dated January 30, 2023 ("PA"), which was published in the Business Standard (English – all editions), Business Standard (Hindi – all editions) and Daily Suraj (Punjabi – Regional edition) on January 31, 2023, draft letter of offer dated February 7, 2023 ("DLOF") and letter of offer along with tender forms (both physical and demat) and share transfer form (form SH-4) dated March 1, 2023 ("LOF"). Capitalised terms used but not defined in this Corrigendum shall have the same meanings as ascribed in the PA, DLOF and LOF unless otherwise defined.

As disclosed in the LOF, the Offer/Tendering Period has been mentioned as a period starting from Wednesday, March 15, 2023 and ending on Tuesday, March 28, 2023 (both days inclusive). In this connection, the Shareholders of the Company are hereby informed that as Wednesday, March 22, 2023, being a SEBI non-working day, the Acquisition Window provided by the BSE will not be functional on that day. Since the Shareholders will not be able to place their bids on Wednesday, March 22, 2023, accordingly, the closing date of the Offer/Tendering Period has been extended by 1 (one) day, whereby the Offer shall now close for bidding on Wednesday March 29, 2023. Accordingly, please find below the revised schedule of activities for the Buyback Offer and the Shareholders

of the Company are requested to note the revision to the Schedule of Activities and all the references in the

LOF with respect to the activities / day and dates must be read accordingly:					
Activity	Original schedule of activities - Day and Date	Revised schedule of activities - Day and Date			
Date of the board meeting approving the proposal for Buyback of Equity Shares	Saturday, January 28, 2023	Saturday, January 28, 2023			
Date of declaration of the results of the postal ballot for passing resolution by the Equity Shareholders of the Company, approving the Buyback	NA	NA			
Date of Public Announcement for the Buyback	Monday, January 30, 2023	Monday, January 30, 2023			
Date of publication of Public Announcement for the Buyback in newspapers	Tuesday, January 31, 2023	Tuesday, January 31, 2023			
Record Date for determining the Buyback Entitlement and the names of Eligible Shareholders	Friday, February 10, 2023	Friday, February 10, 2023			
Buyback opens on/ Buyback Opening Date	Wednesday, March 15, 2023	Wednesday, March 15, 2023			
Buyback closes on/ Buyback Closing Date	Tuesday, March 28, 2023	Wednesday, March 29, 2023			
Last date of receipt of completed Tender Forms and other specified documents including physical share certificates (if and as applicable) by the Registrar to the Buyback	Thursday, March 30, 2023	Friday, March 31, 2023			
Last date of verification of Tender Forms by Registrar to the Buyback	Monday, April 10, 2023	Tuesday, April 11, 2023			
Last date of intimation to the Stock Exchanges regarding acceptance or non- acceptance of tendered Equity Shares by the Registrar to the Buyback	Monday, April 10, 2023	Tuesday, April 11, 2023			
Last date of completion of settlement of bids on the Stock Exchanges	Tuesday, April 11, 2023	Wednesday, April 12, 2023			
Last date of dispatch of share certificate(s) by Registrar to the Buyback/ payment to the Eligible Shareholders / return of unaccepted Demat shares by Stock Exchanges to Seller Member/ Eligible Shareholders	Tuesday, April 11, 2023	Wednesday, April 12, 2023			
Last date of extinguishment of Equity Shares bought back	Tuesday, April 18, 2023	Wednesday, April 19, 2023			

Note: Where last dates are mentioned for certain activities, such activities may happen on or before the respective last dates.

Except as detailed in this Corrigendum, the other contents and terms in the LOF remain unchanged. A copy of this Corrigendum is expected to be available on the websites of SEBI (www.sebi.gov.in), Stock Exchanges (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and the Company (www.sportking.co.in).

In terms of Regulation 24(i)(a) of the SEBI Buyback Regulations, the Board of Directors accepts responsibility for all the information contained in this Corrigendum and confirms that such document contains true, factual and material information and does not contain any misleading information.

For and on behalf of the Board of Directors of Sportking India Limited

Su/-	Su/-	ou/-	i				
Mr. Munish Avasthi	Mr. Naresh Kumar Jain	Mr. Loviesh Verma	İ				
Chairman and Managing Director	Executive Director	Company Secretary and Compliance Officer	ĺ				
DIN: 00442425	DIN: 00254045	Membership No.: ACS-34171	İ				
Pete - Moreh 12, 2022							

Place: Ludhiana

(Rajendra Veer)

For District Deputy Registrar, Co-operative Societies, Mumbai City (3)

Competent Authority,

U/s 5A of the MOFA, 1963.























परिशिष्ट IV देखें नियम 8(1) कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेत्)

जब कि.

इंडियाबल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट. 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार गुरबक्स सिंह और रूपाली को 29.10.2022 की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं. HHLDCP00234741की राशि रू.39.98.037.97 (रूपये उनतालीस लाख अदानवे हजार सैंतीस और सत्तानवे पैसे मात्र) और 28.10.2022 के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी ।

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतदद्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि. अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानन की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानन के नियम 8 के तहत सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके 10.03.2023 को संपत्ति पर सांकेतिक आधिपत्य कर लिया है।

विशेषत: कर्जदारों और सामान्यत: जनता को एतद्द्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि रू.39.98.037.97 (रूपये उनतालीस लाख **अट्टानवे हजार सैंतीस और सत्तानवे पैसे मात्र) 28.10.2022** के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ इंडियाबल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के आधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

फ्लैट नं. 601, मापित 1545 स्क्वेअर फीट (3 बीएचके) सुपर एरिया, छठी मंजिल पर, टॉवर जी2 में, ईको विलेज २ में स्थित प्लॉट नं जीएच ०१ सेक्टर १६बी ग्रेटर नोएडा - २०१३०१ उत्तर प्रदेश। प्राधिकत अधिकारी दिनांक : 10.03.2023

CAPITAL

अचल संपत्ति

स्थान : ग्रेटर नोएडा

PROTECTING INVESTING FINANCING ADVISING

आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः इंडियन रेयॉन कम्पाउंड, वेरावल, गुजरात-362266 **शाखा कार्यालयः** प्रथम तल, विजया बिल्डिंग, प्लॉट नं. 17, बाराखंबा रोड, नई दिल्ली-110001

सांकेतिक कब्जा सूचना [प्रतिमूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(1) के तहत्

जबिक, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम् 2002 (2002 का अधि. 54) के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर आदित्य बिडल फाइनेंस लिमिटेड, प्रथम तल, विजया बिल्डिंग, प्लॉट नं. 17, बाराखंबा रोड, नई दिल्ली—110001 के अधोहस्ताक्षरी प्राधिकृत अधिकारी ने 16 दिसंबर, 2022 को मांग सूचना जारी की थी जिसमें कर्जदारों/सह-कर्जदारों/बंधककर्ताओं/जमानतियों अर्थात मेसर्स एटीएस हाऊसिंग प्राईवेट लिमिटेड, मेसर्स एसरिटव इंफ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड, मेसर्स **तीव्यू लाइफस्पेस प्राईवेट लिमिटेड, श्री गीतांबर आनंद** से सूचना में निर्दिष्ट रु. 118,60,43,912/— (रुपये एक सौ अठारह करोड़ साठ लाख तैंतालीस हजार नौ सौ बारह मात्र) को उक्त सूचना की तारीख से 60 दिनों के अंदर अदा करने के लिए कहा गया। कर्जदार द्वारा भगतान करने में असफल रहने पर एतदद्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य क सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 व 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर नीचे उल्लिखित संपत्ति का 10 मार्च, 2023 को कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार / सह-कर्जदार / बंधककर्ता / जमानती और सामान्य रूप में सर्व ज को संपत्ति से कोई लेन-देन न करने के लिए आगाह किया जाता है और संपत्ति का कोई भी लेन–देन राशि **रु. 118,60,43,912/– (रुपये एक सौ अठारह करोड़ साठ लाख तैंताली**र हजार नौ सौ बारह मात्र) और इस पर व्याज के लिए आदित्य बिड्ला फाइनेंस लिमिटेड, प्रथम तल, विजया बिल्डिंग, प्लॉट नं. 17, बाराखंबा रोड, नई दिल्ली—110001 के प्रभार के अधीन होगा।

उपलब्ध समय के संबंध में प्रत्याभूत परिसंपत्तियों को मुक्त कराने के लिए अधिनियम की धारा 13 की उप—धारा (8) के प्रावधानों में कर्जदार/जमानती का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

प्लॉट नं. एससी–01 / ए–1, सेक्टर–150 नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश स्थित जमीन पर ''एटीए प्रिस्टाइन-।" नाम का ग्रुप हाऊसिंग प्रोजैक्ट, सकल प्लॉट एरिया माप 72,842 वर्ग मीटर, बिक्रीयोग लगभग एरिया 19,71,250 वर्ग फुट नीचे की जमीन में समानुपातिक अविभाजित शेयर सहित इससे संलग भोगाधिकार और इस पर खड़ी या निर्माण की जाने वाली सभी अन्य बिल्डिंग व संरचनाएँ और भूमि पर या भिम से स्थायी रूप से जड़ी किसी चीज पर लगी सभी फिटिंग्स, फिक्सर्स, प्लांट व मशीनरी, वर्तमा व भावी दोनों, प्रोजैक्ट एटीएस प्रिस्टाइन –। की अनबिकी इन्वेंटी सहित।

एटीएस प्रिस्टाइन -। की अनबिकी इन्वेंट्री की सूची (15.06.2022 तक)

					_			
क्र.	टॉवर	तल	अपार्टमेंट	आकार	एरिया	टेरेस	गार्डन	
सं.	सं.	सं.	सं.	(2बीएचके,	यूनिट	(वर्ग फुट)	(वर्ग फुट)	
		***	\	3बीएचके आदि)	(वर्ग फुट)	` ",	(
1	2	01	2011	टाईप — सी	1700			
2	2	01	2021	टाईप — सी	1750			
3	8	01	8011	टाईप — बी	2360			
4	11	02	11021	टाईप — ए	3250			
5	2	ph	2PH1	पीएच	6300	1,515		
6	3	GF	3GF2	टाईप — बी	2400		1,822	
7	3	ph	3PH2	पीएच	4200	920		
8	8	GF	8GF2	टाईप — बी	2400		1,822	
9	Vill	Vill	Villa-15	Vill	8500	1,032		
10	Vill	Vill	Villa-7	Vill	8500	1,032		
	कुल		41360	4499	3644			
प्लॉट	प्लॉट नं एससी–01 / ए−1 सेक्टर–150 नोएडा गौतमबद्ध नगर उत्तर प्रदेश स्थित जमीन पर "एटीएस							

प्रिस्टाइन-।।" नाम का ग्रुप हाऊसिंग प्रोजैक्ट, सकल प्लॉट एरिया माप 20,230 वर्ग मीटर, बिक्रीयोग लगभग एरिया 6,65,720 वर्ग फुट नीचे की जमीन में समानुपातिक अविभाजित शेयर सहित इससे संल भोगाधिकार और इस पर खड़ी या निर्माण की जाने वाली सभी अन्य बिल्डिंग व संरचनाएँ और भूमि पर या भूमि से स्थायी रूप से जुड़ी किसी चीज पर लगी सभी फिटिंग्स, फिक्सर्स, प्लांट व मशीनरी, वर्तमा व भावी दोनों, प्रोजैक्ट एटीएस प्रिस्टाइन –। की अनबिकी इन्वेंट्री सहित।

एटीएस प्रिस्टाइन -।। की अनबिकी इन्वेंट्री की सूची (15.06.2022 तक)

豖.	यूनिट सं.	ब्लॉक / टॉवर	तल	फ्लैट सं.	एरिया
सं.			सं.	14.15 4.11	(वर्ग फुट)
1	P2222	P2	22	2	1750
2	P2PH1	P2	PH	1	6300
3	P2PH2	P2	PH	2	6300
4	P3PH1	P3	PH	1	6300
5	P3PH2	P3	PH	2	6300
6	P4203	P4	20	3	1750
7	P4214	P4	21	4	1750
8	P4PH2	P4	PH	2	6300
9	P1014	P1	1	4	1700
10	P1PH1	P1	PH	1	6300
11	P1PH2	P1	PH	2	6300
	कुल				51050

दिनांकः 10.03.202:

प्राधिकृत अधिकार् (आदित्य बिडला फाइनेंस लिमिटेड

फलरटोन इण्डिया होम फाइनैंस कंपनी लिमिटेड ■■Fullerton ■■ Grihashakti **कॉरपोरेट कार्यालयः** पांचवीं तथा छठवीं मंजिल, बी-विंग, सुप्रीम आईटी पार्क, सुप्रीम सिटी, पोवाई, मुम्बई-400 076 **पंजीकृत कार्यालयः** मेघ टावर्स, तीसरी मंजिल, पुराना नं. 307, नया नं. 165, पुनामाल्ले हाई रोड, मदुरावोयाल, चेन्नई-60009

मांग सूचना

प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय संपत्तियों के पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ("नियम") के प्रावधानों के अधीन

फुलरटोन इंग्डिया होम फाइनैंस कंपनी लिमिटेड (एफआईएचएफसी) के अधिकृत अधिकारी के अधोहस्ताक्षरी ने अधिनयम के अधीन तथा अधिनियम कं धारा 13(12) के साथ पठित नियम 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के तहत अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन मांग सूचना जारी की थी जिसरं नीचे उल्लेखित कर्जदारों को संबंधित सूचना की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के अंदर संबंधित सूचनाओं में उल्लेखित रकम चुकता करने को कहा गय था। अधोहस्ताक्षरी को यथोचित रूप से विश्वास है कि कर्जदारगण मांग सूचना की सेवा से परहेज कर रहे हैं, इसलिए नियमानुसार सूचना की सेवा व का कर तथा प्रकाशन के माध्यम से प्रभावी किया जा रहा है। मांग सूचना की विषय वस्तु नीचे उल्लेखित हैं

ऋण रकम सं., मामले के अनुसार कर्जदार/सह-कर्जदारों, धारा 13(2) के अधीन मांग सूचना सम्पत्ति धारकों का नाम की तारीख एवं कुल बकाया रकम एलएएनः 609107510527676 दिनांक: 28 02 2022 (1) नहीम खान, पिता अब्दुल गरीनिव, (2) मेहराज बेगम रु. 21,34,136/- (रुपये इक्कीस लाख नौंनीय बलार एक सौ छत्तीस मात्र) पता 1 - एफ-129, पहली मंजिल, रघुबीर नगर, दिल्ली, रघुबीर नगर, नई दिल्ली, दिल्ली-110027 एनपीए की तिथि: 31.01.2023

प्रत्याभूत सम्पत्तियों/गिरवी पर रखी गई सम्पत्ति का विवरणः ग्राम कयाला दिल्ली राज्य के राजस्व एस्टेट, दिल्ली तथा विष्णु गार्डन नामव कॉलोनी, नई दिल्ली-110018 में स्थित खसरा नं. 20/3 में से, ब्लॉक-एन (एन102) भूमि का क्षेत्रफल 73 वर्ग यार्ड (61.0353 वर्ग मीटर) पूण स्वामित्व वाली सम्पत्ति में से सम्पूर्ण निर्मित तीसरी मंजिल के साथ छत/टेरेस का अधिकार।

एलएएनः 609107510466672 दिनांक: 28 02 2022 (1) हितेश जगदीश प्रसाद, पिता-डेलिसियस फूड वेज एंड नॉनवेज, रु. 42,14,009/-(2) सचिन जगवीश प्रसाद, (3) सोनम सुरेश चंद पता 1 - मकान नं. 447, स्ट्रीट नं. 4, गुरुनानक पुरा मोदीनगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, मोदीनगर, उत्तर प्रदेश-201204, पता 2 - मकान नं. डी 447, गली नं. 4, गुरुनानक पुरा रु. 1,04,25,653/- (रुपये एक करोड़ चार लाख पच्चीस हजार छह सौ मोदीनगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश,, गुरुनानक पुरा, मोदीनगर, उत्तर प्रदेश-201204 एनपीए की तिथि: 31 01 2023

प्रत्याभत सम्पत्तियों/गिरवी पर रखी गई सम्पत्ति का विवरण: अपर बाजार परगना एवं तहसील मोदीनगर जिला गाजियाबाद में स्थित खसरा न में समाविष्ट एक रिहायसी मकान साथ में चार दुकानें, नगर पालिका का हिस्सा, मांगी गई पंजीकरण सं. 312 तथा सम्पत्ति नं. 302 क्षेत्रफल 296.50 वर्ग यार्ड यानी 248 वर्ग मीटर।

तिरपन मात्र)

. दुद्वारा कर्जदारों को मांग सूचना का अनुपालन करने तथा इस प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के अंदर मांग सूचना में उल्लेखित तथा यहां ऊ उल्लेखित मांग की गई रकम के साथ भुगतान वसूली की तारीख तक उस पर लागू ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, बाउंस चार्ज, लागत तथा व्यय की रकम चुकर करने को कहा जाता है। कर्जदारगण ध्यान दें कि **एफआईएचएफसी** एक प्रत्याभूत ऋणदाता है तथा कर्जदारों द्वारा हासिल ऋण की सुविधा कर्जदारों द्वार गिरवी पर रखी गई प्रत्याभूत सम्पत्ति के रूप में अचल सम्पत्ति/सम्पत्तियों के एवज में प्रत्याभूत ऋण है। कर्जदारों द्वारा निर्धारित समय के अंदर अपनी सम्पू देनदारी चुकता करने में विफल होने पर **एफआईएचएफसी** प्रत्याभूत सम्पत्ति पर कब्जा करने के लिए अधिनियम की धारा 13(4) के अधीन सभी अधिका का प्रयोग करने के साथ, जो इसे बिक्री के जरिए उसका हस्तांतरण अथवा अधिनियम तथा उसके अंतर्गत नियमों के अधीन उपलब्ध अन्य किसी भी उपा का आह्वान करने तक ही सीमित नहीं है तथा भुगतान वसूल करने का हकदार होगा। **एफआईएचएफसी** के पास बिक्री अथवा हस्तांतरण के अधिकार ठा प्रयोग करने से पहले प्रत्याभूत सम्पत्तियों को **कुर्क तथा/अथवा सील** करने का भी अधिकार होगा। प्रत्याभूत सम्पत्तियों की बिक्री के उपरांत गिरवी प रखी गई सम्पत्ति का मूल्य **एफआईएचएफसी** को गुँगतेय बकाया रकम के उपयुक्त नहीं रहने पर **एफआईएचएफसी** के पास शेष रकम की वसूली के लिए पृथक रूप से कानूनी कार्रवाई करने का भी अधिकार है। यह उपाय अन्य किसी भी कानून के तहत **एफआईएचएफसी** के पास उपलब्ध अन्य सभी उपाय . ७ अतिरिक्त तथा स्वतंत्र होगा।

कर्जदार का ध्यान प्रत्याभृत सम्पत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13(8) तथा आगे **एफआईएचएफसी** व लिखित पूर्व अनुमति के बगैर किसी भी प्रत्याभूत सम्पत्ति के निपटान अथवा सौदा करने अथवा बिक्री, पट्टे अथवा अन्य किसी भी रूप में हस्तांतरण (व्यवसा के साधारण कार्यकलापों के अलावा) करने पर रोक/पाबंदी के लिए अधिनियम की धारा 13(13) की ओर आकर्षित किया जाता है तथा ऊपरोक्त व भनुपालन नहीं करने पर अधिनयम की धारा 29 के अधीन दंडनीय अपराध है। मांग सूचना की प्रतिलिपि अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध है तथा कर्जदार वाई तो. उसे अधोहस्ताक्षरी से किसी भी कार्यकारी दिवस को कार्यालय के सामान्य कार्यालयीन घंटे के दौरान संग्रह कर सकते हैं।

अधिकृत अधिकार स्थानः दिल्ली फुलरटोन इण्डिया होम फाइनैंस कंपनी लिमिटे

Sportking

SPORTKING INDIA LIMITED

Corporate Identity Number (CIN): L17122PB1989PLC053162 Registered Office: Village Kanech, Near Sahnewal, G. T. Road, Ludhlana -141 120; Tel. No.: +91 161 2845456 to 60 Fax No.: +91 161 2845458; Email: cs@sportking.co.in; Website: www.sportking.co.in; Contact Person: Mr. Lovlesh Verma, Company Secretary and Compliance Officer

CORRIGENDUM TO LETTER OF OFFER DATED MARCH 1, 2023 FOR THE ATTENTION OF THE EQUITY SHAREHOLDERS/BENEFICIAL OWNERS OF EQUITY SHARES OF SPORTKING INDIA LIMITED ("COMPANY") FOR THE BUYBACK OF EQUITY SHARES THROUGH TENDER OFFER PROCESS UNDER THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (BUY-BACK OF SECURITIES) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED ("SEBI BUYBACK REGULATIONS")

This corrigendum to letter of offer dated March 1, 2023 ("Corrigendum") should be read in continuation of and in conjunction with the public announcement dated January 30, 2023 ("PA"), which was published in the Business Standard (English - all editions), Business Standard (Hindi - all editions) and Daily Suraj (Punjabi – Regional edition) on January 31, 2023, draft letter of offer dated February 7, 2023 ("**DLOF**") and letter of offer along with tender forms (both physical and demat) and share transfer form SH-4) dated March 1, 2023 ("LOF"). Capitalised terms used but not defined in this Corrigendum shall have the same meanings as ascribed in the PA, DLOF and LOF unless otherwise defined.

As disclosed in the LOF, the Offer/Tendering Period has been mentioned as a period starting from Wednesday, March 15, 2023 and ending on Tuesday, March 28, 2023 (both days inclusive). In this connection, the Shareholders of the Company are hereby informed that as Wednesday, March 22, 2023, being a SEBI non-working day, the Acquisition Window provided by the BSE will not be functional on that day. Since the Shareholders will not be able to place their bids on Wednesday, March 22, 2023, accordingly, the closing date of the Offer/Tendering Period has been extended by 1 (one) day, whereby the Offer shall now close for bidding on Wednesday March 29, 2023.

Accordingly, please find below the revised schedule of activities for the Buyback Offer and the Shareholders of the Company are requested to note the revision to the Schedule of Activities and all the references in the LOF with respect to the activities / day and dates must be read accordingly:

Activity	Original schedule of activities - Day and Date	Revised schedule of activities - Day and Date
Date of the board meeting approving the proposal for Buyback of Equity Shares	Saturday, January 28, 2023	Saturday, January 28, 2023
Date of declaration of the results of the postal ballot for passing resolution by the Equity Shareholders of the Company, approving the Buyback	NA	NA
Date of Public Announcement for the Buyback	Monday, January 30, 2023	Monday, January 30, 2023
Date of publication of Public Announcement for the Buyback in newspapers	Tuesday, January 31, 2023	Tuesday, January 31, 2023
Record Date for determining the Buyback Entitlement and the names of Eligible Shareholders	Friday, February 10, 2023	Friday, February 10, 2023
Buyback opens on/ Buyback Opening Date	Wednesday, March 15, 2023	Wednesday, March 15, 2023
Buyback closes on/ Buyback Closing Date	Tuesday, March 28, 2023	Wednesday, March 29, 2023
Last date of receipt of completed Tender Forms and other specified documents including physical share certificates (if and as applicable) by the Registrar to the Buyback	Thursday, March 30, 2023	Friday, March 31, 2023
Last date of verification of Tender Forms by Registrar to the Buyback	Monday, April 10, 2023	Tuesday, April 11, 2023
Last date of intimation to the Stock Exchanges regarding acceptance or non- acceptance of tendered Equity Shares by the Registrar to the Buyback	Monday, April 10, 2023	Tuesday, April 11, 2023
Last date of completion of settlement of bids on the Stock Exchanges	Tuesday, April 11, 2023	Wednesday, April 12, 2023
Last date of dispatch of share certificate(s) by Registrar to the Buyback/ payment to the Eligible Shareholders / return of unaccepted Demat shares by Stock Exchanges to Seller Member/ Eligible Shareholders	Tuesday, April 11, 2023	Wednesday, April 12, 2023
Last date of extinguishment of Equity Shares bought back	Tuesday, April 18, 2023	Wednesday, April 19, 2023
Note: Where last dates are mentioned for	certain activities, such activi	ties may happen on or before

the respective last dates Except as detailed in this Corrigendum, the other contents and terms in the LOF remain unchanged. A copy of this Corrigendum is expected to be available on the websites of SEBI (www.sebi.gov.in), Stock Exchanges (www.sebi.gov.in), Stock Exchanges (www.sebi.gov.in), Stock Exchanges (www.sebi.gov.in), Stock Exchanges (www.sebi.gov.in), Stock Exchanges (www.sebi.gov.in), Stock Exchanges (www.sebi.gov.in), Stock Exchanges (www.sebi.gov.in), Stock Exchanges (www.sebi.gov.in), Stock Exchanges (www.sebi.gov.in), Stock Exchanges (www.sebi.gov.in), Stock Exchanges (www.sebi.gov.in), Stock Exchanges (www.sebi.gov.in), Stock Exchanges (www.sebi.gov.in), Stock Exchanges (www.sebi.gov.in), Stock Exchanges (www.sebi.gov.in), Stock Exchanges (www.sebi.gov.in), Stock Exchanges (www.sebi.gov.in), Stock Exchanges (www.sebi.gov.in), Stock Exchanges (www.sebi.gov.in), Stock Exchanges (www.sebi.gov.in), Stock Exchanges (www.sebi.gov.in), Stock Exchanges (www.sebi.gov.in), Stock Exchanges (www.sebi.gov.in), Stock Exchanges (www.sebi.gov.in), Stock Exchanges (www.sebi.gov.in), Stock Exchanges (www.sebi.gov.in), Stock Exchanges (www.sebi.gov.in), Stock Exchanges (www.sebi.gov.in), Stock Exchanges (www.sebi.gov.in), Stock Exchanges (<a href="www.sebi.gov.i

In terms of Regulation 24(i)(a) of the SEBI Buyback Regulations, the Board of Directors accepts responsibility for all the information contained in this Corrigendum and confirms that such document contains true, factual and material information and does not contain any misleading information.

For and on behalf of the Board of Directors of Sportking India Limited

	Sd/-	Sd/-	Sd/-
DIN: 00442425 DIN: 00254045 Membership No.: AG	Chairman and Managing Director	Executive Director	Mr. Lovlesh Verma Company Secretary and Compliance Officer Membership No.: ACS-34171

Date: March 13, 2023 Place: Ludhiana

जायेगी। आप जनता को व्यक्तिगत अथवा विधिवत अधिकृत एजेन्ट के माध्यम से बोली करने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

मण्डल शस्त्रा केन्द्र, भरतपुर

अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस

प्रतिमूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(६) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्ति का प्रतिमूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिमूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस। आम लोगों को तथा विशेष रूप से ऋणियों एवं जमानतदारों के यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जो बँक के पास गिर्यी / प्रभारित है, का रचनात्मक / मौतिक / सांकृतिक कब्जा बँक / प्रतिमूति लेनदार क्षे बर भारत पर्या आपा है कि भी बनावी जबते समिति आ बर्फ के पाता गिर्चा है भारति है जिस देगालिया मार्गिक का बिक्र प्रतिभूति लेनदार की ब प्राविश्त अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **'जहाँ है, जैसी है और जो कुछ भी है' के आखार पर** संबंधित ऋणियों एवं जमानतदारों के के का प्रतिभूति लेनदार की क प्राविश्व की वसूली हेतु ता**लिका में वर्णित दिनांक** को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य एवं अग्रिम राशि (धरोहर राशि) संबंधित सम्पत्तियों के आगे वर्णित तालिका में है:-प्रतिभूत आस्ति वसी वसी होते कि वसी है जो स्वारित की अनुसूची

शाखा का नाम ॉट i. ऋणियों/जमानतदारो का विवरण	बंधककर्ताओं 2 (सम्पत्तियों के मालिक) वे के नाम सहित	अ) सरफेसी अधिनियम, 1002 की धारा 13(2) 5 अंतर्गत मांग सूचना ही दिनांक ब) बकाया राशि	कब्जे की	(अ) आरक्षित मूल्य (बी) ईएमडी राशि/ ईएमडी जमा कराने की अंतिम दिनांक (सी) बोली वृद्धि राशि	ई-नीलामी की दिनांक एवं समय	अन्य कोई ऋणभार का विवरण
(7564) करौली मैसर्स मेघराज पूरणचन्द रामदयाल गुप्ता	(1) रामदयाल गुप्ता के नाम से साम्बिक बंधक रिहायशी मकान जो मह इग्राहिमपुर, तह. हिण्डोन में स्थित, क्षेत्रफल 64.63 वर्गगज दिनाक 12.07.1985 को विक्रय विलेख पत्र सं. 2336 के जिरेये, सीमाएं- पूर्वः श्री गिरारंज प्रसाद का मकान, पश्चिम: गली 3 फिट, उत्तरः केदार लाल एवं रामसहाय का मकान, दक्षिणः आम रास्ता। 2. बाबूलाल गुप्ता के नाम से साम्बिक बंधक रिहायशी मकान जो मह इग्राहिमपुर, तह. हिण्डोन में स्थित, ठिजसका क्षेत्रफल 64.63 वर्गगज, दिनांक 12.07.1985 को विक्रय विलेख पत्र सं. 2337 जरिये, सीमाएं- पूर्वः श्री गिरांज प्रसाद का मकान, पश्चिम: गली 3 फिट, उत्तरः केदार लाल एवं रामसहाय का मकान, दक्षिणः आम रास्ता।	(बी) रू. 46,13,461.43 (रूपये छियालिस लाख तेरह हजार चां सौ इकसट एवं तियालिस पैसे मात्र) दिनांक 31.01.2019 तक व आगे के ब्याज एवं शुल्कों सहित	भौतिक कब्जा दिनांक 09.09.2022 को लिया	(到) 転. 1930000/- (国) 転. 1,93,000/- /29.03.2023 (我) Rs. 5000/-	30.03.2023 / दोपहरः 12:00 बजे से सांय 05:00 बजे	ज्ञात नहीं

्रिय एव हातें:- विक्री प्रतिभृति कि ति प्रवर्तने) अधिविष्म 2002 में वर्णित नित्ति होता उस घटाकर । नियम एव हातें:- विक्री प्रतिभृति कि (प्रवर्तन) अधिविष्म 2002 में वर्णित निप्ति कि ति प्रवर्तने) अधिवार 2002 में वर्णित निप्ति होता है। आधार बेची जाएगी। 2. प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के लिए इस अनुसूची में निर्देष्ट प्रतिभृत आस्तियों के विवरण को रखा गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस उद्घोषणा में किसी त्रृटि, गलत कथन या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा। 3. बिक्री अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा ई-नीलामी एलेटफोर्म वेबसाईट https://www.msteccommerce.com के निर्देष उपयोजन वर्णित दिनांक को होगी। 4 बिक्री की नियम वर्ष तो की जानकारी के लिए, कृपया https://www.msteccommerce.com/, www.pnbindia.in देखें। प्राधिकृत अधिकारी देनांक 13.03.2023 स्थानः - भरतपुर - सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) के अंतर्गत वैधानिक विक्रय सूचना पंजाब नैशनल बैंक प्रतिमूत लेनदार

IndusInd Bank 🔞

एफआरआर ग्रुप, 11वाँ तल, हयात रिजेंसी कॉम्पलैक्स, न्यू टॉवर, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066

कब्जे का प्रकार आरक्षित मूल्य धरोहर राशि

[नियम 8(1)] कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

जबिक, **इंडसइंड बैंक लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभृति हित प्रवर्तन (सरफासी) अधिनयम 2002 के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर अधोल्लिखत कर्जदार / जमानती / बंधककर्ता को मांग सचना जारी की थी जिसमें उनसे सचना में उल्लिखित राशि को उक्त सचना प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों व अंदर पुनर्भुगतान करने के लिए कहा गया।

कर्जदार, जमानती(ओं) और बंधककर्ता(ओं) द्वारा राशि अदा न कर पाने पर कर्जदार, जमानती(ओं) और बंधककर्ता(ओं) और सर्व सामान्य को सूचित किया जात है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर नीचे वर्णित संपत्ति का नीचे तालिका में उल्लिखित तारीख को कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार, जमानती(ओं) और बंधककर्ता(ओं) और सर्व जनों को सामान्य रूप में संपत्ति से कोई भी लेन–देन न करने के लिए आगाह किय जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन **इंडसइंड बैंक लिमिटेड** के प्रभार के अधीन होगा।

कर्जदार/जमानती/ बंधककर्ता का नाम	मांग सूचना की तारीख	कब्जे की तारीख	मांग सूचना में राशि	संपत्ति का विवरण	
नेसर्स आनंद एजेंसीज, सुभाष आनंद, श्री पंकज आनंद, श्रीमती	21.06.2022	13.03.2023	v. 2,43,19,722.66 (रुपये दो करोड़ तैंतालीस लाख उन्नीस हजार सात सौ बाईस और छियासठ पैसा मात्र)	जनक पुरी, नई दिल्ली स्थित निर्मित संपत्ति नं.	
रूनम आनंद, श्रीमती शालिनी आनंद, श्री नीरज आनंद	दिनांक 31.03.202 एवं व्ययों आदि स		1.04.2022 से इस पर आगे की ब्याज और लागत, प्रभारों	सी-2/311-।, एरिया माप 279.03 वर्ग मीटर में	
ोसर्स एम एस ट्रेडर्स, सुभाष प्रानंद, श्री पंकज आनंद, श्रीमती	21.06.2022	13.03.2023	ए. 5,35,48,427.21 (रुपये पाँच करोड़ पैंतीस लाख अड़तालीस हजार चार सौ सत्ताईस और इक्कीस पैसा	समस्त प्रथम तल, छत अधिकार रहित, के सभी	
भानंद, श्री नीरज आनंद	प्रभारों एवं व्ययों ः	ात्र) दिनांक 31.03.2022 को दिनांक 01.04.2022 से इस पर आगे की ब्याज और लागत, भारों एवं व्ययों आदि सहित			
गिरज आनंद, सुभाष आनंद, श्री गंकज आनंद, श्रीमती पुनम	21.06.2022	13.03.2023	रु. 1,17,75,509.67 (रुपये एक करोड़ सत्रह लाख पिचहत्तर हजार पाँच सौ नौ और सड़सठ पैसा मात्र)	फिटेड चालू हालत में पानी, बिजली और सीवेज कनैक्शनों सहित, सीढियों.	
	दिनांक 31.03.202 एवं व्ययों आदि स		1.04.2022 से इस पर आगे की ब्याज और लागत, प्रभारों	रास्ता और लिफ्ट में कॉमन अधिकारों, नीचे की	
नीरज सेल्स प्रा. लि., नीरज आनंद, सुभाष आनंद, श्री पंकज	21.06.2022	13.03.2023	v. 2,28,20,487.16 (रुपये दो करोड़ अटाईस लाख बीस हजार चार सौ सतासी और सोलह पैसा मात्र) दिनांक	जमीन में समानुपातिक अधिकारों सहित, स्टिल्ट	
आनंद, श्रीमती पूनम आनंद, श्रीमती शालिनी आनंद, मेसर्स आनंद एजेंसीज	31.03.2022 को वि आदि सहित	देनांक 01.04.202	2 से इस पर आगे की ब्याज और लागत, प्रभारों एवं व्ययों	पार्किंग जगह में कॉमन कार पार्किंग सहित	
देनांकः 14.03.2023		स्थानः	नई दिल्ली प्राधिकृत अधिक	गरी, इंडसइंड बैंक लि.	

■IndiaShelter इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉपोर्रेशन लिमिटेड

: 6ठी मंजिल, प्लॉट 15, सेक्टर-44, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरुग्राम, हरियाणा-122002,

शाखा कार्यालय : दकान नं. 204, 205, 206, गांधार कॉम्पलेक्स, निकट कृष्णा होटल, भगत चौराहा, ब्यावर-30590

सार्वजनिक सचना-अचल संपत्ति की बिक्री के लिए नीलामी [प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(1) के तहत]

मांग सूचना की तिथि

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत इंडिया शैल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (आईएसएफसी) (प्रतिभृत लेनदाः के पास गिरवी अचल संपत्ति की बिक्री के लिए सूचना

सामान्य रूप से जनता को और विशेष रूप से कर्जदार(री) और जमानती(यों) या उनके कानूनी उत्तराधिकारियों/प्रतिनिधियों को सुचना दी जाती है कि प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/प्रभारि नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जिसका कब्जा आईएसएफसी के प्राधिकृत अधिकारी (प्रतिभूत लेनदार) द्वारा ले लिया गया है, नीचे वर्णित कर्जदारी, सह-कर्जदारो अथवा जमानतियों से बकार देयताओं की वसूली के लिए ''जहां है जैसे है'', ''जो है यही है'' तथा ''जो कुछ भी है वहीं है'' आधार पर 31.03.2023 (नीलामी की तारीख) को बिक्री की जायेगी। सार्वजनिक नीलाग में भाग लेने के लिए ईएमडी राशि वाला मुहरबंद लिफाफा आईएसएफसी के प्राधिकृत अधिकारी के पास शाखा/कॉपोरेंट कार्यालय:- दुकान नं. 204, 205, 206, गांधार कॉम्पलेक्स, निक कष्णा होटल, भगत चौराहा, ब्यावर-305901 में 30.03.2023 को शाम 5 बजे तक जमा करना होगा।

ऋण खाता सं. कर्जदार(रों)/सह-कर्जदार(रों)/ जमानती(यों)/ विधिक उत्तराधिकारी(यों)/ तहत) CHL100005 1. अनिता दागड़ी भौतिक कब्जा रु. 13,14,131.83/-(रुपये तेरह लाख चौदह हजार एक 2. पुष्पेन्द्र दागड़ी ₹. 11.10.000/ रु. 1.11.000 / (रुपये ग्यारह 3. पूरन प्रकाश (रुपये एक 0824225 सौ इकतीस एवं तिरासी पैसे मात्र) मात्र) हजार मात्र)

31.05.2022 तक सम्पत्ति **का विवरण**ः प्लॉट नंबर 03 के उत्तर की ओर के हिस्से का समस्त भाग, क्षेत्रफल – 62.50 वर्ग गज, खसरा नंबर – 798, 799, 800, 801, गांव– नवा नगर, ज्यावर, जिला अजुमेर, (राजस्थान) सीमाएं : पूर्व– प्लॉट नंबर 04, पश्चिम– कॉमन रास्ता 30 फीट चौड़ा, उत्तर– प्लॉट नं. 02, दक्षिण– इस संपत्ति क्षेत्र का शेष दक्षिण भाग का हिस्सा–क्षेत्रफल 56.9

नेयम एवं शर्ते निर्धारित निविदा/बोली प्रपत्र और बिक्री के नियम और शर्ते शाखा/कॉपोरेंट कार्यालयः शाखा/कॉपोरेंट कार्यालयः- दुकान नं. 204, 205, 206, गांधार कॉम्पलेक्स, निकट कृष्णा होटत

भगत चौराहा, ब्यावर-305901 पर सुबह 10.00 बजे से शाम 5.00 बजे के बीच किसी भी कार्य दिवस पर उपलब्ध होंगी। अचल संपत्ति आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेची जाएगी।

 उपर्यक्त संपत्ति/यों की खरीट के लिए जमा की गई बोलियों/निविदाओं के साथ ऊपर उल्लिखित धरोहर राशि संलग्न की जाएगी। ईएमडी राशि दिल्ली में देय 'इंडिया शेल्सर फाइनें कॉर्पोरेंशन लिमिटेड' के पक्ष में होगी। नीलामी के बाद असफल बोलीदाताओं को ईएमडी राशि वापस कर दी जाएगी।

उच्चतम बोली लगाने वाले को हमेशा सफल बोलीदाता घोषित किया जाएगा, बशर्ते कि वह बोली लगाने के लिए कानूनी रूप से योग्य हो और बशर्ते कि बोली की राशि आरक्षित म् से कम न हो। जब प्रस्तावित कीमत इतनी अपर्याप्त प्रतीत हो कि ऐसा करने की सलाह न दी जा सके तो उच्चतम बोली को अस्वीकार/स्वीकार करना प्राधिकृत अधिकारी के विवे

संभावित बोलीदाता 25/03/2023 को प्रातः 11.00 बजे से सायं 5.00 बजे के बीच पूर्व अनुमति लेकर संपत्ति का निरीक्षण कर सकते हैं

सफल बोलीदाता के रूप में घोषित व्यक्ति, घोषणा के तुरंत बाद, ईएमडी राशि सहित खरीद राशि/उच्चतम बोली की राशि का 25% 24 घंटे के भीतर प्राधिकृत अधिकारी के पास ज करेगा और इस तरह की जमा राशि में चक होने पर, संपत्ति को तरंत निजी संधि द्वारा नई नीलामी/बिकी के लिए रखा जाएगा। उपरोक्त के अनुसार प्रारंभिक जमा किए जाने की स्थित में, देय क्रेता धन की शेष राशि का भुगतान क्रेता द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को संपत्ति की बिक्री की पृष्टि की तारीख से 15

दिन या उससे पहले सिवाय इसके कि ऐसे दिन या यदि 15वें दिन खेवार या अन्य अवकाश हो. तो 15वें दिन के बाद पहले कार्यालय दिवस पर किया जाएगा ऊपर वर्णित अवधि के भीतर किसी भी भुगतान में चूक होने की स्थिति में, संपत्ति को निजी सिंध द्वारा नई नीलामी/बिक्री के लिए रखा जाएगा। ईएमडी सिंहत जमा राशि इंडिया शेल

फाइनेंस कॉपोरेंशन लिमिटेड द्वारा जब्त कर ली जाएगी और चूककर्ता खरीदार का संपत्ति पर कोई दावा नहीं होगा। उपरोक्त बिक्री आईएसएफसी के अंतिम अनुमोदन के अधीन होगी, इच्छुक पार्टियों से अनुरोध है कि वे संबंधित विभागों/कार्यालयों से वैधानिक और अन्य बकाया जैसे बिक्री/संप

कर, बिजली बकाया, और सोसाइटी का बकाया की पुष्टि/पुष्टि करें। कंपनी संपत्ति पर किसी भी देय राशि के भुगतान की कोई जिम्मेदारी नहीं लेगी।

🕦 1% का टीडीएस, यदि कोई हो, उच्चतम बोली लगाने वाले द्वारा उच्चतम घोषित बोली राशि के अतिरिक्त देय होगा। भुगतान कंपनी के पैन में उच्चतम बोली लगाने वाले द्वारा ज किया जाना है और चालान की प्रति कंपनी के पास जमा करनी होगी।

, यह बिकी दम विचापन और निर्धारित निविद्य पपत्र में आमिल निरमों और अर्ती के अधीन है। 12) सफल बोलीदाता∕क्रेता कानून के अनुसार पंजीकृत विक्री प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु सभी स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क और आकस्मिक खर्चों को वहन करना होगा।

3) प्राधिकृत अधिकारी को बिना कोई कारण बताए बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने या स्थगित/स्थगित/निविदा को रद्द करने और बिना किसी पूर्व सूचना के इस बिक्री के किसी भ नियम और शर्तों को संशोधित करने का पूर्ण अधिकार है।

4. इच्छुक बोलीदाता श्री विनय से मो. नंबर 7988605030 कार्यालय समय के दौरान (सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक) से सम्पर्क कर सकते हैं।

कर्जदार/जमानतदार/बंधककर्ता को 15 दिनों की बिक्री सूचना

उपर्युक्त कर्जदार/बंधककर्ता/जमानतदारों को धारा 13(2) के तहत मांग सूचना में उल्लिखित राशि का भुगतान ब्याज और खर्च के साथ नीलामी की तारीख से पहले करने लिए[ँ] सूचना दी जाती है, जिसमें विफल रहने पर संपत्ति की नीलामी की जाएगी और बकाया राशि, यदि कोई हो, आपसे ब्याज और लागत सहित वसूल की जाएगी।

(प्राधिकृत अधिकारी) इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉपोर्रेशन लिमिटे

(T) IDBI BANK Claim Case No. 189 M/S AAREN EXPORTS THROUGH ITS ACCOUNT MANAGER SH. VISHAL MAH HAVING WORKS & REGISTERED OFFICE AT B-17 FOCAL POINT EXTENSION

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

रिटेल रिकवरी, प्रथम तल, विडियोकॉन टॉवर, ई-1, झण्डेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055, फोनः 01166083056, 011-66084896, 011-41666301

ई-नीलामी सूचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत मेगा ई-नीलामी बिक्री सूचना जो 29.03.2023 को प्रातः 11 बजे से दोपहर 12.00 बजे आयोजित की जायेगी एतदृद्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारकों तथा जमानतदारों को सूचना दी जाती है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति / प्रतिभूति लेनदार (आईडीबीआई बैंक लि.) के पास गिरवी / प्रभारित है। जैसा कि, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी अर्थिक ऋणधारक के समझ नीचे दिए गए विवरण के अनुसार ऋणधारकों /जमानावारों /बंधककतां विकास प्रियोग करण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रस्ति अधिक के लिए मांग सुचना जारी किया। पुनः वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूति करण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रविक्त प्रयोग करते हुए संबंधित प्राधिकृत अधिकारों के नीचे वर्णित प्रतिभूत परिसम्पत्ति का भौतिक कब्जा ले लिया है। जबकि, प्रतिभूति परिसम्पतियों के मांग सूचना के अनुसार ऋणधारकों से आईडीबीआई बैंक लि. को देय प्रतिभूति का प्रतिभूति परिसम्पत्तियों के मांग सूचना के अनुसार ऋणधारकों से आईडीबीआई बैंक लि. को देय प्रतिभूति का प्रतिभूति का प्रतिभूति का प्रतिभूति का प्रतिभूति का के ब्याज, लागत तथा उस पर बैंक द्वारा वहन की गई शुल्कों, उसके बाद वस्ती यदि कोई हो, को घटाकर, की वसूली के लिय सार्वजनिक ई—नीलामी द्वारा बिक्री की

蒸 . 花.	ऋणधारक/सह- ऋणधारक एवं गारन्टर का नाम	मांग सूचना तिथि एवं उसमें वर्णित बकाया राशि	प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का विवरण	कब्जे की स्थिति (भौतिक या सांकेतिक)	कब्जा की तिथि	आरक्षित मूल्य	धरोहर राशि (ईएमडी भुगतान की राशि)	ईएमडी एवं बोली दस्तावेज जमा कराने की अंतिम तिथि व समय	खाता का विवरण जिसमें आरटीजीएस/एनईएफटी एवं आईएफएससी कोड के माध्यम से ईएमडी जमा की जायेगी	संपत्ति के निरीक्षण की तिथि एवं समय	बोलीवृद्धि राशि	नोडल अधिकारी/ प्राधिकृत अधिकारी का नाम एवं सम्पर्क नं.
1.	श्री अनुज त्यागी	₹. 65,69,000/-	प्लॉट नं. 583, ब्लॉक नं. 26, ओमेक्स सिटी, ग्राम-सारंगपुग, भम्भोरिया, बगरू खुर्द व ठीकरिया, तहसील-सांगानेर, अजमेर रोड, जयपुर		29 अप्रैल, 2021	₹.42,50,000/-	₹. 4,25,000/-	27/03/2023	Ac no- 29837000010772 Ac name SRA Suspense Account	भावी खरीददार स्वयं निरीक्षण कर सकते हैं	₹.25,000/-	प्राधिकृत अधिकारी डॉ. जे पी पारिश [9911671815]. नोडल ऑफिसर-इमरान खान [8360234378]

प्रतिभूति आस्तियों की बिक्री की अनुसूची

ई—नीलामी की संक्षिप्त नियम व शर्तें:— यह बिक्री प्रित्पृति हित (प्रवर्तन्) नियमां एवं शर्तों के अधीन होगी। 1. प्रित्मृति सेनप्ति की यह बिक्री प्रित्मृति लेनदार अर्थात् आईडीबीआई बैंक लि. के लिये तथा उनकी ओर से "जैसा है, जो भी जैसा है, जो कुछ भी वहां है" के आधार पर होगी। 2. यह बिक्री पूरी तरह से इस विज्ञापन तथा बोली दस्तावेज में दी गई नियमों एवं शर्तों के अधीन होगी। बोली दस्तावेज हमारी किसी भी शाखा से समी कार्य दिवसों को प्राप्त की जा सकती है अथवा आईडीबीआई की वेबसाईट अर्थात www.idbibank.in तथा साथ ही https://www.bankeauctions.com से डाजनलोड की जा सकती है। 3. यह बिक्री पूरी निलामी सेवा प्रदाता मैसर्स सी। इंडिया प्रा. लि. सम्पर्क श्री विनोद चौहान, (ई—मेल elhi@Critidia.com एवं support@bankeauctions.com) अथवा मो. नं. +91-9813887931 (फोन नं. +91-14-44302020) के माध्यम से वेबसाइट "https://www.bankeauctions.com से डाजनलोड की जा सकती है। 3. यह बिक्री कोई कारण बताये किसी भी बोली को स्वैक्षाइट "https://www.bankeauctions.com से उपाय किसी किसी प्रदेश के स्विक्षाइट "https://www.bankeauctions.com से ही लिए हो मी समय असी कार करने अथवा नी निलीत / रह करने का अधिकार है तथा इस संवर्भ में उनका निर्णय का नित्र हो किसी भी साथ असी के स्विक्षाइट किसी मान हो, को जमा की किसी हो से स्विक्षा करने वार्थ विक्री मूल्य का मुगतान करना होगा। शेष बिक्री मूल्य का मुगतान बिक्री की पुष्टि के 15 दिनों के भीतर अथवा एओ द्वारा थथा स्वीकृत विस्तारित अवधि में किया जायेगा। निर्धारित अवधि में शेष विक्री मूल्य के मुगतान में चूक करने पर पहले जो हा लिए नी हो लिया जायेगा। निर्धारित अवधि में शेष हित्य सभी साविधिक देयताओं / एटेन्डेन्ट चार्जीज/अस्व बकार्यों का केता द्वारा ही वहन किया जायेगा।

विवरणों तथा सम्पूर्ण नियमों एवं शर्तों के लिए कृपया www.idbibank.in देखें एवं / अथवा सम्पत्ति के समक्ष ऊपर वर्णित नोडल अधिकारी / प्राधिकृत अधिकारी से सम्पर्क करें। सरफेसी अधिनियम 2002 के नियम 9(1) व 8(8) के अंतर्गत 15/30 दिनों की सांविधिक बिक्री सूचना एतद्द्वारा ऋणधारकों / जमानतदारों को सूचित किया जाता हैं कि ई-नीलामी की तिथि से पूर्व अद्यतन ब्याज तथा सहायक खर्चे के साथ उपरोक्त राशि का भुगतान करें जिसमें विफल रहने पर सम्पत्ति की नीलामी / बिक्री कर दी जावेगी तथा शेष बकाया, यदि कोई हो, ब्याज तथा लागतों के साथ वसूल की जायेगी।

Given under my hand and seal of the Counc on this the Member Secretary Micro Small Enterprises Facilitation Council , Distt. Industries centre Jalandhar.

M/S PREM SONS THROUGH ITS

HAVING ITS OFFICE AT 424/1 STREET NO -9 RAJINDER NAGAR, DEHRADUN (UK

......Respondant

M/S PREM SONS THROUGH ITS PROPRIETOR LAKSHAYA AGGARWAL HAVING ITS OFFICE AT 424/1 STREET NO.-9, RAJINDER NAGAR, DEHRADUN (UK)

IRAJINUER NAGAR, DEHRADUN (UK)
Whereas the above named claimant filed the
above noted claim case under MSMED Act,
2006. But in spite sending notices by
registered Post as well as through your
registered email address, you have failed to
appear before this council to answer the
claim of claimant.

You are hereby directed to appear before the council on 15/03/2023 at 10:00 am Personally to answer the claim of the claim case of the claimant, failing which the case will be heard and decided in your absence in

accordance with law

दिनांक: 13.03.2023 स्थान: राजस्थान

प्राधिकृत अधिकारी, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड



ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ : ਬਹਿਰ

ਅਮਰਗੜ੍ਹ, 13 ਮਾਬਾ (ਕੁਸੀਂ ਅਕਵੇਲ)-ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੌਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਅਦਾ ਮਿਲਾਵੀ ਦੇ ਹੋਸ ਕਜੋਂ 20 ਦੀ ਅਤੇ ਸੰਸ਼ਕਤ ਫਿਸਾਨ ਮੰਗਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਾਂਡਮਦੀ ਚੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਹੱਟ ਸਿਸਾਨ ਦੀ ਸ਼ਿਸ਼ਕਤਿ ਸ਼ੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹਰਿਤ ਸੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹਰਿਤ ਸੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹਰਿਤ ਸੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹਰਿਤ ਸੰਧੀ ਸ਼ਿਸ਼ਕਤਿ ਦੀ ਸ਼ੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਲਕਾਮ ਸਿੰਘੀ ਸ਼ਹਿਤੂ ਵਾਲੇ ਲਗੜਾ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਗਿਆਨਾ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਸ਼ੁਰਜ ਸ਼ਪੀਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਰੁਕਾਰ ਕੁਰ ਨਾਨਕਾਰ ਵਾਲਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਕ ਭਰਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ



ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਈਟ ਦੇ ਮੇਨ ਗੇਟ ਤੇ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਅੱਜ ਤੋਂ - ਭੁਪਿੰਦਰ ਲੌਗੋਵਾਲ

ਨਿੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੌਂਕ ਬਰੰਬ: ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਬਰੰਬ, ਮਨਸੀਆਂ ਵੱਡ, ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਈ-ਮੇਲ : lobo82@lob.in

ਵਿਕੱਤਰ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਰਿਸ਼ਨੇ ਦੀ ਸੰਬੰਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਰਿਸ਼ਨੇ ਦੀ ਸੰਬੰਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਰਿਸ਼ਨੇ ਦੀ ਸੰਬੰਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਰਿਸ਼ਨੇ ਦੀ ਸਭ

स्वी-लेश : Indottigioù in Greit 27 02-2022
अवविदेशकोक्षक स्वेम स्वी-स्वार अपन क्षांत्रिक स्वेम विकास किया है। इस स्वार स्वार स्वार स्वी-स्वार स्वार स्वी-स्वार स्वार स

हाराध्या कार कहा रहत रहिता है। प्रधानक रहत है कि किया ने नहीं होता है कि हम के प्रधान है कि हम



र्तावतु पुरः बेंस्व हॅर्ले निरु। पंपनी पुरः ਉउमह रा आप्नेतर

ਸੰਗਰਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਾਰੀ ਯੂਵਾਂ ਉਤਲਵ ਦੀ ਅੰਪਜਨ ਸੰਗਰਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜ਼ਿਲ੍

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਔਰਤ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ

मैंबाबुब, 13 भण्या (स्वामीय स्वितंत्रण) (स्वामीय स्वितंत्रण) सम्मूर्ण विवाणी वे मिंग्डे अभ्रेम विद्या मेंबाज्य प्रमाप्त प्रकारण मिंग्डे के विद्यान स्वामीय भेरे वे विद्यान स्वामीय भेरे की विद्यान स्वामीय भेरे मी विद्यान के वेंद्र, इस्ता भोरता विद्यान के वेंद्र, इस्ता भोरता विद्यान के वेंद्र, इस्ता भोरता के वेंद्र, विद्यान स्वीतंत्र वेंद्री। विमासे स्वीतंत्र विद्यान के वेंद्र स्वामीय केंद्र मेंब्र क्षेत्र मेंब्र स्वामीय केंद्र मेंब्र स्वामीय केंद्र स्वामीय केंद्र प्रमाण मान्यान व्यविष्ण स्वामीय स्वामीय स्वामीय प्रमाण स्वामीय विद्यान स्वामीय

ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਫਰਿੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸ਼ਸ਼ਟ ਕਰ ਤੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਔਰਤ ਦੇ ਮੁਕਤੀ ਕਰ। ਇਸ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਕਰ। ਇਸ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਕਰਾਉਂਦ ਨਾਲ ਹੀ ਔਰਤ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਤੁਕੰਬੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਕਰਾਉਂਦ ਨਾਲ ਹੀ ਔਰਤ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਤੁਕੰਬੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ



ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਬੰਦੀ, ਕਰਿਤਿਕਾ, ਜਗਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਬਬਲੂ ਅਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਈਸੀ ਦਲ ਐਫਤਾਂ ਦੀ ਇਸਾ ਸੰਬੰਧੀ ਗੀਤ ਹੋਏ। ਬਿਸੀਪਲ ਇਕਬਾਲ ਕੌਰ ਕਵੇਂ ਲਈ ਦੇ ਦਲ ਸੰਬੰਧੀ ਗੀਤ ਕਵੇਂ ਲਈ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਬੰਧਨ ਸੰਬੰਧ ਦੀ ਆਗੂ ਡਾਂ ਰਿਕਨਪਾਲ ਹੋਰ ਐਲੜ ਵਲੋਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਰਿਆ। ਰਿਕਨਪਾਲ ਹੋਰ ਐਲੜ ਵਲੋਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਰਿਆ। ਕਾਲਵੇਨਲਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਰਿਆ। ਕਾਲਵੇਨਲਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਰਿਆ। ਕਾਲਵੇਨਲਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਰਿਆ। ਕਾਲਵੇਨਲਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਰਿਆ। ਕਾਲਵੇਨਲਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕੀਤੀਵਾਰੀ ਘੱਲ ਮਜਦਰ ਲਮੀਅਤ ਮਜਦਰ ਲਮੀਅਤ ਮਜਦਰ ਲਮੀਅਤ ਸਭਾ ਦੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੰਗਰੂਰ ਵਿਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਵਾਨਵਰ ਹੈ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੰਗਰੂਰ ਵਿਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਵਾਨਵਰ ਹੈ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੰਗਰੂਰ ਵਿਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਵਾਨਵਰ ਹੈ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੰਗਰੂਰ ਦੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾ

SPORTKING INDIA LIMITED

Activity	Original schedule of activities - Day and Date	Revised schedule of activities - Day and Date
Date of the board meeting approving the proposal for Buyback of Equity Shares	Saturday, January 28, 2023	Saturday, January 28, 2023
Date of declaration of the results of the postal beliot for passing resolution by the Equity Shareholders of the Company, approving the Buyback	NA	NA
Date of Public Announcement for the Buyback	Monday, January 30, 2023	Monday, January 30, 2023
Date of publication of Putric Announcement for the Buyback in newspapers	Tuesday, January 31, 2023	Tuesday, January 31, 2023
Record Date for determining the Buyback Enditerment and the names of Eligible Shareholders	Friday, February 10, 2023	Friday, February 10, 2023
Buyback opens on Buyback Opening Date	Wednesday, March 15, 2023	Wednesday, March 15, 2023
Buyback clases on Buyback Closing Date	Tuesday, March 28, 2023	Wednesday, March 29, 2023
Last date of receipt of completed Tender Forms and other specified documents including physical share certificates (if and as applicable) by the Registrar to the Buyback	Thursday, March 30, 2023	Friday, March 31, 2023
Last date of verification of Tender Forms by Registrar to the Buyback	Montay, April 10, 2023	Tuesday, April 11, 2023
Last date of intimation to the Stock Exchanges regarding acceptance or non- acceptance of fundered Equity Shares by the Registrar to the Buyback	Monday, April 10, 2023	Tuesday, April 11, 2023
Last date of completion of settlement of bids on the Stock Exchanges	Tuesday, April 11, 2023	Wednesday, April 12, 2023
Last date of dispatch of share certificate(s) by Register to the Buyback/ payment to the Erigbie Shareholders' return of unaccepted Certor shares by Stock Suchanges to Seller Member/ Eligible Shareholders	Tuesday, April 11, 2023	Wednesday, April 12, 2023
Last date of extinguishment of Equity. Shares bought back	Tuesday, April 18, 2023	Wednesday, April 19, 2023

Sdl-	Sd/-
Mr. Naresh Kumar Jain Executive Director DIN: 00254045	Mr. Loviesh Verms Company Secretary and Compliance Office Membership No.: ACS-34171
	Mr. Naresh Kumar Jain Executive Director